

শিশুদেরে জন্ম বাইবলে
উপহার



कुईयां पर
एगो
औरत



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Lazarus
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen

অনুবাদিত: Sonu Rahi


দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.


লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।




यीशु आउर उनखर चेला सामरिया के देस से होके जा रहलन
हल। उ सुखार नाम के एगो शहर के बगल में अईलन।




उहाँ एगो कुईयां हल जहाँ सुखार के लोगबन पिये वाला
पानी निकालऽ हलन। याकूब, इस्राएलिअन के बाबूजी इ
कुईयां के बड़ी पहिले खोदबैलन हल।



दुपहर के लगऽ हे कि बड़ी रौदा आउर गर्मी हल। यीशु,
कुईयां पर बैठ गेलन। तब तक चेलबन खाय ला खरीदे
सुखार नगर चल गेलन।






उहाँ यीशु एकदम
अकेले हलन बाकि
थोड़े समय के बाध
सुखार नगर से एगो
औरत पानी भरे
लागी आल। यीशु
ओकरा से कहलन,

“हमरा पिये लागी
पानी दऽ।”






औरत आश्चर्यचकित हो
गेल। उ कहलक, "तूं
यहूदी हो के एगो
सामरी औरत से पिये
लागी पानी कईसे मांग
सकऽ हऽ?" उ घरी,
यहूदी लोगबन
समरिअन से कोई लेन
देन न करऽ हल।



जखनी यीशु उनखा से
कहलन, त उ बड़ी जादे
हैरान हो गेलन। "जदी
तूं हमरा जानतऽ हल
कि हम कोन ही? त तूं
हमरा से जीवन के जल
मांगतऽ हल।"





औरत, यीशु से कहलक, "श्रीमान,
अपने भीर पानी निकाले लागी कुछो न हे, आउर
इ कुइयां बड़ी गहिड़ा हे। तऽ फिर अपने उ जीवन के
जल के कैसे निकालबऽ? का अपने हमर बाबुजी,
याकूब से बड़का ह जोन हमरा इ कुइयां देलन हे...?"







यीशु उ औरत से कहलन,
"जोन इ पानी के पीतन
उ फिन से पियासल हो
जइतन। बाकि जोन
जीवन के जल हम देम
ओकरा से उ फिन कहियो
पियासल न होतन। जोन
पानी हम देम... उ
ओकरा में हमेसा जीवन
के पानी के एगो सोता
बन जाई।" औरत
कहलक, "श्रीमान, उ
पानी के हमरा दऽ।"




यीशु कहलन, जा अपन मरद के बोला के ले आबऽ। "हमर कोय मरद न हे," औरत जबाब देलक। यीशु कहलन, "तूं पांच मरद कर लेलऽ हे। "आउर जोन अभी तोरा साथे हे ऊ भी तोहर मरद न हथन।"




औरत जान गेल कि यीशु एगो नवी हथन। उ परमेश्वर के
आराधना करे के बारे में बहस करे के कोसिस कैलनः
परमेश्वर के आराधना यरूशलेम में करूँ चाहे सामरिअन के
'पवित्र पर्वत पर, यीशु जबाब देलन कि सच्चा उपासक पिता
परमेश्वर के उपासना आत्मा आउर सच्चाई से करऽ हथन।



औरत यीशु से कहलन, "हम जानऽ ही कि मसीहा आबे वाला हथन" जखनी उ अइथन, त उ हमनी के सभ्भे बात बतइहन। जिनखा से तू बात कर रहलऽ हे हम ओही ही, "यीशु उनखा बतइलन" तभी चेलबन वापस आ गेलन। औरत महंगा घैला के उहें छोड़ के उहाँ से अपन शहर चल गेल।






"औरत सुखार
शहर में जाके सभे
आदमिअन से बतावे
लगलन कि आबऽ उ
आदमी के देखऽ
जोन सभे कुछ
हमरा बता देलन हे"
जे हम हमेसा कैली
हे। "का एही मसीहा
हथन?" आदमिअन
यीशु के देखे लागी
शहर छोड़ के
निकल गेलन।



एही बिच, चेलबन यीशु के खाय लागी कहलन। बाकि यीशु कहलन "हमर खाना हमर भेजे वाला के इच्छा पूरा करेला आउर उनखर काम पूरा करेला हे।" उनखर काम लोगबन के परमेश्वर भीर लावे ला हे।



उ औरत के कारण ढेर मनी उनखा पर विस्वास कैलन। उ यीशु के उनखा साथे रहे लागी कहलन; आउर यीशु हूँआ दू दिन तक



रहलन। ढेर मनी लोगबन यीशु के वचन पर विस्वास कैलन "ओंखनी कहलन जैसही हम अपने सुनली आउर देखली कि इ सच्चो में मसीहा हथन, आउर दुनिया के उद्धारकर्ता हथन।"



कुईयां पर एगो औरत

ঈশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

যুহুনা 4

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দিয়ে।”
গীতসংহিতা 119:130





এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈকিরছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছোঁ, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠয়িছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয় স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বিবাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বিবাস করনে য়ে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রয়ি যীশু, আমি বশ্বিবাস করয়ি আপনিতাঁর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়ছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়ছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

